



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और उत्पाद शुल्क::  
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL GST & EXCISE.



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142

Email: cevappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क अपील / फाइल संख्या /  
Appeal / File No.  
V2/19/BVR/2017

मूल आदेश सं /  
O.I.O. No.  
BHV-EXCUS-000-ADC-PV-  
001-16-17

दिनांक /  
Date  
19.12.2016

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

**BHV-EXCUS-000-APP-271-2017-18**

आदेश का दिनांक /  
Date of Order: 27.03.2018

जारी करने की तारीख /  
Date of issue:

05.04.2018

Passed by **Dr. Balbir Singh, Additional Director General (Taxpayer Services), Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.**

अधिसूचना संख्या २६/२०१७-के.उ.शु. (एन.टी.) दिनांक १७.१०.२०१७ के साथ पढ़े बोर्डे ऑफिस आदेश सं. ०५/२०१७-एस.टी. दिनांक १६.११.२०१७ के अनुसरण में, डॉ. बलबीर सिंह, अपर महानिदेशक करदाता सेवाएँ, अहमदाबाद जोनल यूनिट को विल्ट अधिनियम १९९४ की धारा ८५, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम १९५४ की धारा ३५ के अंतर्गत दर्ज की गई अपीलों के सन्दर्भ में आदेश पारित करने के उद्देश्य से अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

In pursuance to Board's Notification No. 26/2017-C.Ex.(NT) dated 17.10.2017 read with Board's Order No. 05/2017-ST dated 16.11.2017, Dr. Balbir Singh, Additional Director General of Taxpayer Services, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad has been appointed as Appellate Authority for the purpose of passing orders in respect of appeals filed under Section 35 of Central Excise Act, 1944 and Section 85 of the Finance Act, 1994.

- ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /  
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :
- घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellants & Respondent :-**  
**M/s Krislur Castomech Pvt. Ltd., Plot No. 184,,Chitra Industrial Estat,, Bhavnagar.**

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

- (A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं विल्ट अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/  
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-
- (i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर के पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/  
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.
- (ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- ३८००१६ को की जानी चाहिए।/  
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

- (iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

- (B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियों संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise [Appeals] (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (iii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
- सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- amount determined under Section 11 D;
- amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

## (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :

**Revision application to Government of India:**

इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /  
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /  
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /  
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /  
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /  
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम है तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। /  
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलार्थी न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। /  
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलार्थी न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /  
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलार्थी प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। /  
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in)

## ORDER IN APPEAL

During the course of audit of M/s. Shree Sand] Alloys Pvt. Ltd., Ahmedabad, it was found by the audit team of Central Excise, Ahmedabad that they had taken excess Cenvat credit on the basis of invoices issued by the dealer viz. M/s. Aksha Steel, Bhavnagar. Therefore, inquiry was initiated against M/s. Aksha Steel, Bhavnagar, which is registered with the department as a dealer. During the course of inquiry against M/s. Aksha Steel, it was found that they had purchased M. S. Scrap from M/s. Weispun Corporation Ltd., Bharuch. On making inquiry with M/s. Weispun Corporation Ltd., Bharuch, it was revealed that they had charged Central Excise duty in excess on the assessable value and paid the same through Cenvat credit resulting in excess availing of Cenvat credit. The inquiry resulted in revealing the fact that **M/s. Kislur Castomech Private Ltd., 184, Chitra Industrial Estate, Bhavnagar-364004 (Herein after referred to as the "appellant")** had availed Cenvat credit of Rs. 10,31,473/- on the basis of the invoices issued by the M/s. Aksha Steel, Bhavnagar.

2. It was alleged that the cenvat credit availed by the appellant was not legally admissible since the same was in contravention of Rule 3(1) of Cenvat Credit Rules, 2004, which provides that a manufacturer of final products or a provider of taxable service shall be allowed to take Cenvat credit of the duty of Excise specified in the First Schedule and Second Schedule to the Central Excise Tariff Act leviable under the Central Excise Act, 1944.

3. Accordingly, a Show Cause Notice dated 07.01.2014 was issued to the appellant demanding and recovering cenvat credit amounting to Rs. 10,31,473/- along with applicable interest and penalties.

4. The said Notice was adjudicated vide CIO No. BHV-EXCUS-000-ADC-PV-001-16-17 dated 19.12.2016 by the Additional Commissioner, Central Excise and Service Tax, Rajkot, wherein the Adjudicating Authority has:

- (a) confirmed the demand of irregularly availed and utilized Cenvat credit of Rs. 10,31,473/- under rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 read with section 114(5) of Central Excise Act, 1944;
- (b) ordered for recovery of interest under rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 read with Section 11A of Central Excise Act, 1944;
- (c) imposed penalty of Rs. 51,57,32% under Rule 14(2) of Cenvat Credit Rules, 2004 read with section 114(5) of Central Excise Act, 1944.

*Chakraborty*  
 \_\_\_\_\_  
 27/02/18

5. Feeling aggrieved the appellant filed the Appeal on the following grounds:

- that the adjudicating authority has erred in confirming the demand on the ground that the appellant is liable to pay the demand on the ground that the appellant is ineligible for such credit.
- that the adjudicating authority has erred in confirming the demand by relying on circular number 94311/2017-01, in as much as the amount paid by the manufacturer and not seen to have been refunded to them.
- that the adjudicating authority has erred in confirming the demand without properly and correctly the documents referred.
- that the adjudicating authority has erred in confirming the demand without considering the facts and the law that any amount paid to the government is the nature of duty (nothing but the duty and even if it is paid in excess of eligible credit) available in view of the settled law.
- that the adjudicating authority has erred in confirming the demand without considering the fact that the department had full knowledge of the fact of avancement of credit and hence demand was ought to have been declared as barred by limitation.
- that the adjudicating authority has erred in imposing the penalty of 10% (Rs. 15,737/-) on the ground as mentioned in the order as also on the ground as mentioned above.

6. The appeal was taken before the Commissioner (Appeals) Rayachoti. The undersigned has been nominated as Commissioner (Appeals) / Appellate Authority as regards to the case of appellant vide Board's Order No. 05/2017-Service Tax dated 16.11.2017 issued by the Union Secretary (Service Tax), G.O.I. M.O.F., Deptt. of Revenue, CBEC, service tax wing. On the basis of **Board's Circular No. 208/6/2017-Service Tax dated 17.10.2017.**

7. The appellant's representative (Adv. Jeyaraj) on 01.02.2018, wherein representative of the appellant Shri Parag Jhota, Consultant reiterated the submissions made in the appeal memo and requested to drop the proceedings.

8. The issue arises for consideration in the instant matter is as follows: The question to be decided in the appeal is whether the Cenvat credit of Rs. 10,31,473/- availed and utilized by the appellant on the basis of the invoices issued by the Mrs. Akshaylaxmi Bhavnandri is correct or otherwise.



9. I have observed that the appellant has availed credit of duty on the basis of invoices issued by M/s. Akshya Steel Bhavnagar, registered dealer, who in turn had availed the credit of duty on the basis of the invoices issued by the manufacturer M/s. Wespur Corporation Ltd. I have further observed that the officers of the Ahmedabad Commissionerate had visited premises of M/s. Shree Satya Alloys Pvt. Ltd., Ahmedabad for the audit purpose and during audit it was noticed that M/s. Akshya Steel Bhavnagar, dealer registered with the department had also applied material in the department with the high of amount of duty and query was raised to the Dealer, who in turn made inquiry with the manufacturer M/s. Wespur Corporation Ltd. wherein they clarified that they had some stock of pipe moving from Gujarat which were properly classifiable under heading No. 7305 and the same were classed as item 13 scrap under heading 7204 but since said pipes were finished goods they had paid duty on the value of similar pipes and therefore the duty paid is in excess of the value of such scrap.

10. From the above, it can be concluded that the amount of duty is passed on by the dealer to the appellant and there is no dispute about the payment of duty made by the original manufacturer. The appellant has availed the credit of duty on the basis of invoices which form part of the consideration paid to the dealer. It is also a well settled proposition that even if the duty is paid in excess of the duty required to be paid the credit under the Central Excise Act, such excess amount is refunded to the payer of such duty.

11. In these circumstances, I hold that the appellant has correctly availed the Central credit. To support my contention, I rely upon the following decisions:

- In case of M/s. V.G. Steel Industry V/s. Commissioner of Central Excise, reported at 2011 (271) E.T. 508 (P&H) while allowing Party's appeal, the Hon'ble Court has held that where excess duty paid was refunded, appellant is entitled to avail credit of central credit.
- In case of JEE GB and other Interpane Pvt. Ltd. v/s. Commissioner of Central Excise, New Delhi reported at 2014 (28) E.T. 413 (Ct. Delhi) the Tribunal New Delhi found assessee eligible for credit of duty paid by supplier and rejected department's contention to restrict the credit to duty payable on transaction value.

In case of Commissioner of Central Excise, Rajkot v/s. Arma Industries (P) Ltd., reported at 2008(229) E.T. 716 (R. Ahmedabad), the Tribunal Ahmedabad held that duty paid in spite of not disputed payment of duty by supplier, was not set aside, but on facts and circumstances of case, credit taken by recipient of goods cannot be held to be irregular and had affirmed the Department's appeal.



10. In view of above, I find the appellant eligible for the CENVAT Credit of Rs. 10,31,473/- and since the demand itself is not sustainable interest & imposition of penalty is not warranted.

11. Set aside the impugned order of the tax appellant's appeal. The order filed by the respondent shall read as per the above terms.

Date: 28/03/2018

*Dr. Balraj S...*  
[Signature]

27/03/18  
[Date]

28/03/2018

Shri. A. K. ...  
M/s. Kishor Customer ...  
Plot No. 184,  
Chitra Industrial Estate,  
Bachhavadi, 364 004

Copies to:

1. The Chief Commissioner of Excise & Customs, Ahmedabad Zone
2. The Commissioner of Excise & Customs, Ahmedabad Commissioner (Appeals) Zone
3. The Tax Officer, Ahmedabad Zone, ...
4. ...
5. ...